

विद्या भवन बालिका विद्यापीठ

शक्ति उत्थान आश्रम लखीसराय

विषय संस्कृत दिनांक 22-02-2021

वर्ग षष्ठ शिक्षक राजेश कुमार पाण्डेय

एन० सी० ई० आर० टी० पर आधारित

संस्कृत - भाषा में कर्मवाच्य का और भाववाच्य का प्रयोग बहुत किया जाता है।

(iii) भाववाच्य - अकर्मक धातुओं का कर्मवाच्य के समान रूप का जिसमें प्रयोग दिखलाई देता है, वह भाववाच्य का प्रयोग होता है। यहाँ क्रिया केवल भाव को सचित करती है। इसलिए वह सदा केवल प्रथम पुरुष एकवचन में ही प्रयुक्त होती है। वह कर्ता के लिङ्ग, पुरुष व वचन का अनुसरण नहीं करती है। जहाँ लिङ्ग अपेक्षित होता है, वहाँ नपुंसकलिङ्ग एकवचन का ही प्रयोग होता है। कृदन्त में क्रिया का प्रयोग करने पर वह नपुंसकलिङ्ग एकवचन में ही होगी। भाववाच्य में प्रथमा विभक्तियुक्त पद दिखाई नहीं देता है। भाववाच्य में भी कर्ता तृतीया विभक्ति में ही प्रयुक्त होता है। जैसे कि-

जायते/ खेल्यते/ हस्यते/ सुप्यते/ प्रियते/ जातम्/ खेलितम्/ हसितम्/
सुप्तम्/ मृतम्। तदुक्तम् यथा-

भाववाच्ये क्रिया वक्ति न कर्तारं न कर्म च।

तत्र कर्ता तृतीयायां क्रिया भावानुसारिणी॥

भावे तु कर्मवाच्यक्रियैकवचने प्रथमपुरुषे।

सा चेद् भवेद् कृदन्ता क्लीबप्रथमैकवचने स्यात्॥

अकर्मक - धातुँ - लज्ज्, भू, स्था, जागृ, वृध्, क्षि, भी, जीव्, मृ, कुट्,
कण्ठ्, भ्रम्, यत्, ग्लौ, , कृप्, च्युत्, शम्, ध्वन्, मस्ज्, कद्, जृम्भ,
रम्भ, रुद्, हस्, शी, क्रीड्, रुच्, दीप् इति। इन धातुओं की गणना निम्न
प्रकार से की गई है -

लज्जा सत्ता स्थिति जागरणं, वृद्धिक्षय भय जीवितमरणम्।

कौटिल्यौत्सुक्य भ्रमयत्नग्लानिजरा सामर्थ्य क्षरणम्॥

शान्तिध्वनिमज्जनवैकल्यं, जृम्भणरम्भणरोदनहसनम्।

शयनक्रीडारुचिदीप्त्यर्थं, धातुगणं तमकर्मकमाहुः॥

इनके अतिरिक्त अन्य धातुँ सकर्मक ही होती हैं। यहाँ कर्ता व क्रिया के
अनुसार कर्तृवाच्य व कर्मवाच्य की तालिका दी जा रही है। इस तालिका
द्वारा वाक्य (वाच्यानुसार) निर्माण का अभ्यास करना चाहिए-

कर्तृवाच्यम् - कर्मवाच्यम्

भवान्/सः पठति। - भवता/तेन पठ्यते।

भवन्तौ/तौ पठतः। - भवद्भ्याम्/ताभ्याम् पठ्यते।

भवन्तः/ते पठन्ति। - भवद्भिः तैः पठ्यते।

भवती/सा पठति। - भवत्या/तया/पठ्यते।

भवत्यौ/ते पठतः। - भवतीभ्याम्/ताभ्याम् पठ्यते।

भवत्यः/ताः पठन्ति। - भवतीभिः/ताभिः पठ्यते।

त्वं पठसि। - त्वया पठ्यते।

युवाम् पठथः। - युवाभ्याम् पठ्यते।

यूयम् पठथ। - युष्माभिः पठ्यते।

अहं पठामि। - मया पठ्यते।

आवाम् पठावः। - आवाभ्याम् पठ्यते।

वयम् पठामः। - अस्माभिः पठ्यते।

एषः/अयं बालकः पठति। - एतेन/अनेन बालकेन पठ्यते।

एषा/इयं बालिका पठति। - एतया/अनया बालिकया पठ्यते।

एतौ/इमौ बालकौ पठतः। - एताभ्यां/आभ्यां बालकाभ्यां पठ्यते।

एते/इमे बालिके पठतः। - एताभ्यां/आभ्यां बालिकाभ्यां पठ्यते।

एते/इमे बालकाः पठन्ति। - एतैः/एभिः बालकैः पठ्यते।।

एता/इमाः बालिकाः पठन्ति। - एताभिः/आभिः बालिकाभिः पठ्यते।

